

Tijaria Polypipes Limited



Date: November 09, 2023

To,
The Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001
Scrip Code: 533629

To,
Listing Compliances,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Mumbai-400051
Company Symbol: TIJARIA

Dear Sir,

Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement in respect to publication of Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023

Please find enclosed herewith the copies of Newspaper Advertisement published on 09th November, 2023 in Financial Express (Delhi Edition) and Business Remedies (Jaipur Edition) in respect of Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours Truly,

For Tijaria Polypipes Limited

Praveen Jain Tijaria
Digitally signed by
Praveen Jain Tijaria
Date: 2023.11.09
14:20:22 +05'30'

Praveen Jain Tijaria
Whole time Director
DIN: 00115002

Encl: As above

PIPING SOLUTIONS

Correspondence Office:

A-130 (H), Road No. 9-D, Vishwakarma Industrial Area
Jaipur-302013 (Raj.) India
Tel : 0141-2333722
E-mail: info@tijaria-pipes.com

Regd. Office / Works:

SP-1-2316, RIICO Industrial Area
Ramchandrapura, Sitapura Extn.
Jaipur-302022 (Raj.) India.
CIN - L25209RJ2006PLC022828

SHUBHAM HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. LTD.
 Corporate Office : 425, Udyog Vihar Phase IV, Gurgaon-122015 (Haryana)
 Ph. : 0124-4212530/31/32, E-Mail: customercare@shubham.co website : www.shubham.co

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES)

Whereas the undersigned being the authorized officer of the Shubham Housing Development Finance Company Limited (hereinafter called Shubham) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice calling upon borrowers to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described hereinbelow in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Shubham Housing Development Finance Company Limited for an amount detailed below and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Details are as below:

S. No.	Loan No/Borrower(s), Co-Borrower	Demand Notice Amount	Date of Demand Notice	Secured Asset	Date of Affiliation
1.	DDMV220100005043298, Badruzama, Bibi Gulshah	Rs. 13,06,248/-	18-08-2023	Flat No- 403, Fourth Floor Kharsa No- 547, Plot No. 226, 227, 228 Lotus Pride Apartment, Railway Line Ke Park Green Park, Chhapra Bujurg Dadr. Gautam Budh Nagar, Ghaziabad Uttar Pradesh- 201009	06-11-2023
2.	OPRV190700005021401, Janaki, Kanoo Lal	Rs. 12,16,339/-	18-08-2023	Property Bearing No. 179, Part of Kharsa No. 12/9, Third Floor, With Roof Right, New Layapur Colony, Village Khureji Khas, Ilaqa Shahdara, Delhi East Delhi -110051	06-11-2023
3.	SHB_1509_044970, Kishor Kumar, Madhu Bala	Rs. 6,39,282/-	18-08-2023	Plot No. 25, Kharsa No-1969, MIN Krishna Vihar Colony Village Behta Hazipur Pargana Loni Tehsil & Dist Ghaziabad Uttar Pradesh - 201005	06-11-2023

PLACE:- GURGAON, DATE :- 08-11-2023

Authorized Officer,
SHUBHAM HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COMPANY LTD.

SMART FINSEC LIMITED
 CIN: L74899DL1995PLC063562
 REGD. OFFICE: F-88, WEST DISTRICT CENTRE, SHIVAJI ENCLAVE, OPP. TDI PARAGON MALL, RAJOURI GARDEN, NEW DELHI-110027
 Phone-011-25167071 Website: www.smartfinsec.com, Email: smartfinsec@gmail.com

Extract of Un-audited Standalone Financial Results for the quarter and six months ended September 30, 2023
 (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Six Months Ended		Year Ended
		30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	
1	Total income from operations	785.02	727.75	514.24	1,299.28	1,397.36
2	Profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	207.27	39.06	-12.35	194.92	63.79
3	Profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	207.27	39.06	-12.35	194.92	63.79
4	Net profit / (loss) for the period after tax	158.97	29.91	-12.35	146.62	47.69
5	Total comprehensive income for the period	158.97	29.91	-12.35	146.62	47.69
6	Paid-up equity share capital (Face value per share Rs. 10/- each)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
7	Earnings per share					
a)	Basic (Rs. per share)	0.53	0.10	-0.04	0.49	0.16
b)	Diluted (Rs. per share)	0.53	0.10	-0.04	0.49	0.16

Notes:

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on November 08, 2023.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly / year to date Financial Results are available on the website BSE Limited at www.bseindia.com and on Company's website www.smartfinsec.com.

For and on behalf of Smart Finsec Limited
 Sd/-
Arun Khera
 Managing Director
 DIN-00055694

Place: New Delhi
Date: 08th November 2023

PRISM MEDICO AND PHARMACY LIMITED
 Registered office: Suketi Road, Kala Amb, Sirmour, Himachal Pradesh-173030
 CIN: L24100HP2002PLC009299; Website: www.prismmedico.in
 Email Id: investorgrievancewmc@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (PROVISIONAL) FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ENDED 30.09.2023

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Year to date		Year ended
		(Unaudited) Reviewed	(Unaudited) Reviewed	(Unaudited) Reviewed	(Unaudited) Reviewed	(Audited) Reviewed	
1.	Total income from operations (Net)	4.33	1.63	0.00	5.96	127.23	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-5.43	-0.80	-2.18	-14.33	-10.22	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-5.43	-0.80	-2.18	-14.33	-10.22	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-5.43	-0.80	-2.22	-14.33	-7.63	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-5.43	-0.80	-2.22	-14.33	-7.63	
6.	Equity Share Capital	606.34	606.34	606.34	606.34	606.34	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	895.48	900.91	639.17	895.48	909.81	
8.	Earning per share (before extraordinary items) (Face Value of Rs. 10/- each)	-0.0009	-0.0015	-0.0004	-0.0024	-0.0013	
9.	Earning per share (after extraordinary items) (Face Value of Rs. 10/- each)	-0.0009	-0.0015	-0.0004	-0.0024	-0.0013	

Notes:-

- The above results are as per Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended and have been taken on record by Board of Directors at its meeting held on 08.11.2023 after being reviewed by the Audit Committee. 2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- The company is having single segment in accordance with IND AS 108 "operating segments", and therefore segment reporting is not applicable to the company.

For and on behalf of Board
 Sd/-
Davender Singh
 Director (DIN: 09447213)

Place: Kala Amb
Date: 8.11.2023

DURGESH MERCHANTS LIMITED
 Regd. off: D-251, GROUND FLOOR, DEFENCE COLONY, NEW DELHI- 110024,
 CIN: L65923DL1984PLC248322 ;
 E-mail: durgeshmerchants@gmail.com ; Website: www.durgeshmerchantsltd.com ; Ph: 011-68888824

Extract of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter and Half-Year ended 30th September, 2023
 (Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended
		9/30/2023 (Unaudited)	9/30/2023 (Unaudited)	9/30/2022 (Unaudited)
1	Total Income from operations	52.71	83.18	6.27
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	38.50	59.33	(0.51)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	38.50	59.33	(0.51)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	28.49	43.90	(0.38)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] (Refer Note No. 2)	21.26	36.67	26.05
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-)	280.25	280.25	280.25
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):			
	Basic:	1.02	1.57	(0.01)
	Diluted:	1.02	1.57	(0.01)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results are available on the Company's website (www.durgeshmerchantsltd.com).
- The Company has adopted Indian Accounting Standard ("Ind AS") from 1st April, 2016 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Ind AS 34 "Interim Financial Reporting", prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

On Behalf of the Board
 For Durgesh Merchants Limited
 Sd/-
Rohit Anuja
 (Managing Director)

Place: New Delhi
Date: 08th November, 2023

DEMAND NOTICE

Act, 2002 (the said Act) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules) in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IFL Home Finance Ltd. (IFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:

Name of the Borrower (s)/ Guarantor (s)/ Legal Heir 'S	Demand Notice Date & Amount	Description of secured asset (Immovable property)
Mr.-Manish Kumar- M/S Manish Dry Cleaner, Mrs.Raj Kalli Mrs Rajni Rajni (Prospect No 811396)	06-Nov-2023 Rs.22,99,047/- (Rupees Twenty Two Lakh Ninety Nine Thousand Only)	All that piece and parcel of the property being - Eastern Portion of H.No-895/1, 1st and 2nd Floor, Ward No-XIV (XIV/895-1), Entire FF & SF, Land area Ad Measuring: 540 Sq.ft, Carpet Area Ad Measuring 772 Sq.ft, Super Built up Area Ad Measuring: 888 Sq.ft, Gali Sain Sheodipura Karol Bagh, Delhi, 110005

This is to bring in your kind notice that due to information received death of MR.BISHAMBAR LAL the earlier demand notice issued under 13(2) of SARFAESI ACT,2002 w.r.t above mentioned loan account/prospect no is hereby stands withdrawn. If the said Borrowers fail to make payment to IFL HFL as aforesaid, IFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. Plot No. 3030E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najaigar Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi or Corporate Office: IFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar Ph-IV Gurgaon, Haryana.

Place:-Delhi, Date:-09-11-2023 **Sd/- Authorised Officer, For IFL Home Finance Ltd.**

EFFICIENT INDUSTRIAL FINANCE LTD
 CIN: L65923DL1984PLC019608
 Regd Office: 3/14A, Vijaynagar Double Storey, Delhi-110009
 Contact No. 9311480885, Website: www.efficientindustrial.in, Email Id: efficientindustrial@gmail.com

Extract of Standalone unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended on 30th September, 2023
 Amount in Lacs

Sl. No.	Particulars	Three Months ended as on		Six Months ended as on		Year ended
		30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2022	
1	Total income from Operations (net)	2.72	0.62	6.12	3.34	6.74
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-0.09	-0.93	2.58	-1.02	2.36
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-0.09	-0.93	2.58	-1.02	2.36
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.09	-0.93	1.91	-1.02	1.74
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.09	-0.93	1.91	-1.02	1.74
6	Equity Share Capital	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year					
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) (for continuing and discontinued operations)-					
	1. Basic:	-0.03	-0.37	0.77	-0.41	0.7
	2. Diluted:	-0.03	-0.37	0.77	-0.41	0.7

Notes:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half Yearly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange i.e. www.mse.in and the listed entity i.e. www.efficientindustrial.in b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income, or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. c) Provision of segment reporting are not applicable.

For and on behalf of the Board of Directors
 Efficient Industrial Finance Limited
 Sd/-
Vijay Kumar
 Director
 DIN No. 08105303

Date: 08.11.2023
Place: Delhi

TIJARIA POLYPIPES LIMITED
 REGD. OFF: SP-1-2316, RIICO INDUSTRIAL AREA, RAMCHANDRAPURA, SITAPURA EXTENSION, JAIPUR-302022, CIN: L25209RJ2006PLC022828
 TELEFAX: 0141-2333722 EMAIL: INVESTORS@TIJARIA-PIPES.COM
 (Rs. In lakhs except the Point No. 7)

Extract of Un-audited standalone financial results for the quarter and six months ended September 30, 2023

Particulars	Three Months Ended		Six Months Ended		Year ended
	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2022	
Total income from operations and others	6.00	6.13	12.46	12.13	1010.44
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(64.39)	(85.16)	(117.40)	(149.55)	(553.69)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(66.19)	(85.16)	(117.45)	(151.35)	(554.74)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(66.19)	(85.16)	(117.45)	(151.35)	(554.74)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(66.19)	(85.16)	(117.45)	(151.35)	(554.74)
Paid-up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66
Earnings Per share of Rs. 10/- each (not annualised)	(0.23)	(0.30)	(0.41)	(0.53)	(1.94)
Basis	(0.23)	(0.30)	(0.41)	(0.53)	(1.94)
Diluted	(0.23)	(0.30)	(0.41)	(0.53)	(1.94)

Notes:

- The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 08th November, 2023.
- Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.
- Provision for Income Tax, Deferred Tax if any, shall be recognised at year end/quarter four.
- Management intends that the plant and machinery belonging to the Textile and Pipe Division are operable and will be used when production activities resume in due course. Depreciation is charged under straight line method based on the determined useful life of the assets, hence depreciation is charged on the assets during this production shutdown period as per Indian Accounting Standard-16.
- Bank of India has been declared NPA to the company on 30.06.2022 (w.e.f. 27.11.2020) as on date outstanding loan amount was 7250.19 lacs and Bank Guarantee Rs.57 lacs total 7307.19 lacs.
- As Management have decided that there is not made interest provision on NPA bank account during this Period
- Bank of India has been forfeited Equity shares of Company promoters as on 15.07.2022 in respect of Bank Guarantee given to the bank of India.
- Operating Segments: The Company primarily operates in One segments i.e. Pipes & Textiles. The products considered for each operating segments are: 1) Pipes includes HDPE, PVC pipe, irrigation system;

For and on behalf of the Directors
 Sd/-
Parveen Jain
 Whole Time Director
 (DIN: 00115002)

Place: Jaipur
Date: 08.11.2023

TALBROS ENGINEERING LIMITED
 CIN - L74210HR1986PLC033018
 Regd. Off. 74-75-76, Sector-6, Faridabad, Haryana 121006
 Ph # 0129-4284300, Fax # 0129-4061541, website: www.talbrosexles.com, Email : cs@talbrosexles.com

STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2023
 (Rupees in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter	Year to	Corresponding
		Ending	Date /	3 months
		30.09.2023	Period	ended in the
			Ending	previous year
			30.09.2023	30.09.2022
1	Total income from operations	10,250.26	19,935.16	11,803.34
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	594.56	1209.07	1,042.79
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	594.56	1209.07	1,042.79
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	443.91	898.91	775.24
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	443.91	898.91	775.24
6	Equity Share Capital	507.65	507.65	507.65
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)			11435.45
				(As at 31st March, 2023)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	1. Basic:	8.74	17.71	15.27
	2. Diluted:	8.74	17.71	15.27

Notes:

- The above is an extract of the detailed information of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.talbrosexles.com)
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 08th November, 2023.
- The Board of Directors have approved a payment of interim dividend of Rs. 1.50/- (Rupees One and a half paise only) per equity share of the face value of Rs. 10/- each for the financial year 31st March, 2024. The record date for the purpose of payment of interim dividend is fixed on 21st November, 2023.

For and on behalf of the Board
 Sd/-
(Ankush Jindal)
 Executive Director
 DIN: 03634690

Place : Faridabad
Date : November 08, 2023 **R/o H. No. 37, Sector-55, Faridabad, Haryana 121004**

NORTHERN RAILWAY
CORRIGENDUM

Ref:- i) Tender Notice No. 64/2023-2024 Dated 27/10/2023. S.N.-04
 ii) Tender No. 07231972E due on 24/01/2024.
 In reference to above tender, the due date of opening of tender No. 07231972E has been postponed from 04/01/2024 to 04/12/2023. All other terms and condition remain unchanged.
 The corrigendum has been published on website www.ireps.gov.in 3498/2023

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
 (Formerly Fullerton India Credit Company Limited)
 Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice of 30 days for Sale of Immovable Asset(s) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)/Secured Creditor will be sold on "As is what is", and "Whatever there is" on 18.12.2023 at 11:00 am to 01:00 pm (with unlimited extensions of 5 minute each), for recovery of Rs. 1,01,70,295/- (Rupees One Crore One Lakh Seventy Thousand Two Hundred Ninety Five Only) as on 16.02.2023 and further interest and other expenses thereon till the date of realization, due to SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)/Secured Creditor from the Borrowers and Guarantor(s) namely Prabhath Hat MFG Co, Narendar Kumar Sharma, Nima Sharma. The reserve price will be Rs. 1,04,50,000/- (Rupees One Crore Four Lakh Fifty Thousand Only) and the Earnest Money Deposit (EMD) will be Rs. 10,45,000/- (Rupees Ten Lakh Four Thousand Five Hundred Only). The last date of EMD deposit is 16.12.2023.

Description of Immovable Property: Northern Eastern Portion of BUILT UP FREEHOLD PROPERTY BEARINGNO-J-4/2 (ADJOINING AREA OF VILLAGE TATARPUR DELHI. SQ. YDS SITUATED ATRAJOURI GARDEN AREA OF VILLAGE TATARPUR DELHI.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)/Secured Creditor's website i.e. www.smfgindia.com

Place: Delhi NCR Date: 09.11.2023 **Sd/-, Authorised Officer,**
 SMFG India Credit Company Limited (formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
 (Regulation 14 of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)
FOR THE ATTENTION OF STAKEHOLDERS OF "IRODE MICROSYSTEMS PRIVATE LIMITED"

1. Name of Corporate Person	IRODE MICROSYSTEMS PRIVATE LIMITED
2. Date of incorporation of corporate person	18/08/2008
3. Authority under which corporate person is incorporate/registered	Ministry of Corporate Affairs The Registrar of Companies, NCT of Delhi
4. Corporate Identity Number of corporate person	U92100DL2008PTC182125
5. Address of Registered Office and principal office of corporate person	C-106, Purvasha, Anand Lok Apt. Mayur Vihar, Phase-I, New Delhi 110091
6. Liquidation commencement date of corporate person	05.11.2023
7. Name, address, email address, telephone number and the registration number of the liquidator	Name: Suman Pandey, Add: 2E/207, 2nd Floor, CAXTON HOUSE Jhandewalan Extension New Delhi - 110055, Email id: ip_sumanpandey@gmail.com, Mobile No.: 9654772642, I/P Registration No.: IBB/IIPA-002/IP-N01218/2022-23/14219
8. Last date for submission of claims	04.12.2023

Notice is hereby given that the IRODE MICROSYSTEMS PRIVATE LIMITED has commenced voluntary liquidation on 05.11.2023.

The stakeholders of IRODE MICROSYSTEMS PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit a proof of their claims,